

National Bank for Financing Infrastructure and Development
राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक

प्रेस विज्ञप्ति

30 जून, 2025 को समाप्त तिमाही के वित्तीय परिणाम

राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक ने 29 जुलाई 2025 को मुंबई में अपनी बोर्ड बैठक आयोजित की, जिसमें निदेशक मंडल ने 30 जून, 2025 को समाप्त तिमाही के लिए संस्था के खातों को मंजूरी दी। तिमाही समाप्त जून 2025 के दौरान, संस्थान के संचालन ने एक मजबूत प्रदर्शन दिया।

वित्तीय वर्ष 26 की प्रथम तिमाही के मुख्य अंश

1. वित्तीय प्रदर्शन:

संस्था का कर पश्चात लाभ रु. 714.48 करोड़ था, जो वित्तीय वर्ष 26 की प्रथम तिमाही के दौरान वर्ष दर वर्ष के आधार पर 50.01% और तिमाही दर तिमाही के आधार पर 19.05% बढ़ गया है। निवल ब्याज आय रु. 733.36 करोड़ थी और वर्ष दर वर्ष के आधार पर 38.19% और तिमाही दर तिमाही के आधार पर 21.90% तक बढ़ गई।

2. क्रेडिट एक्सपोजर में वृद्धि:

संस्था का कुल क्रेडिट एक्सपोजर रु. 63,763 करोड़ था, जिसमें वर्ष दर वर्ष के आधार पर 42.61% और वित्तीय वर्ष 26 की प्रथम तिमाही के दौरान तिमाही दर तिमाही के आधार पर 7.27% की वृद्धि हुई है, कुल क्रेडिट एक्सपोजर में रु. 59,018 करोड़ के ऋण और अग्रिम और रु. 4,669 करोड़ के बॉन्ड में निवेश और रु. 76 करोड़ की इक्विटी शामिल है।

3. तुलन पत्र अवलोकन

संस्था की तुलन पत्र का आकार जून 30, 2025 तक रु. 88,688 करोड़ मार्क तक पहुंच गया है, जो वित्तीय वर्ष 26 की प्रथम तिमाही के दौरान तिमाही दर तिमाही के आधार 6.58% पर और 46.45% की वर्ष दर वर्ष वृद्धि को दर्शाता है। यह वृद्धि इस अवधि के दौरान संस्थान के मजबूत वित्तीय प्रदर्शन और रणनीतिक विस्तार को प्रदर्शित करती है।

4. संपत्ति की गुणवत्ता

संस्थान की परिसंपत्ति की गुणवत्ता मजबूत रहती है, जिसमें वित्तीय वर्ष 26 की प्रथम तिमाही के दौरान कोई स्लिपपेज रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। तदनुसार, सकल गैर निष्पादित परिसंपत्ति ("GNPA") और नेट गैर

द कैपिटल, ए विंग, 15 वीं मंजिल, 1503, जी ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400051



National Bank for Financing Infrastructure and Development
राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक

निष्पादित परिसंपत्ति ("NNPA") जून 30, 2025 तक शून्य पर थे. नियामक आवश्यकताओं के अनुरूप, वित्तीय वर्ष 26 की प्रथम तिमाही के लिए लाभ और हानि खाते में केवल रु. 18.49 करोड़ की राशि का मानक एसेट प्रोविजनिंग किया गया है.

मुख्य मेट्रिसेस और परिणामों का सारांश

(₹ करोड़ में)

विवरण	तिमाही			गति	
	जून -24 (तिमाही)	मार्च-25 (तिमाही)	जून-25 (तिमाही)	तिमाही दर तिमाही (%)/बीपीएस	वर्ष दर वर्ष (%)/बीपीएस
कुल क्रेडिट एक्सपोजर	44,710	59,441	63,763	7.27	42.61
टर्म लोन	44,610	56,620	59,018	4.24	32.30
निवेश :					
बॉन्ड	100	2,745	4,669	70.09	4,569
इक्विटी	-	76	76	-	-
आय					
ब्याज आय	1,085	1,396	1,640	17.48	51.15
गैर-ब्याज आय	16	102	70	(31.37)	337.50
ब्याज व्यय	554	795	907	14.09	63.72
निव्वळ ब्याज आय	531	601	733	21.96	38.04
परिचालन व्यय	34	59	70	18.64	105.88
परिचालन लाभ	513	644	733	13.82	42.88
निव्वळ लाभ	476	600	714	19.00	50.00
अनुपात					
एनआईएम (%)	3.88	3.70	3.75	5 बीपीएस	(13) बीपीएस
आरओए (%)	3.49	3.46	3.53	7 बीपीएस	4 बीपीएस
आरओई (%)	8.13	9.87	11.33	146 बीपीएस	320 बीपीएस
सीईटी-1 (%)	105.70	73.35	70.36	(299) बीपीएस	(3534) बीपीएस
सीआरएआर (%)	106.35	73.93	70.94	(299) बीपीएस	(3541) बीपीएस
लागत से आय अनुपात	6.19	8.41	8.71	30 बीपीएस	252 बीपीएस
अग्रिमों पर प्रतिफल	8.18	8.62	8.59	(3) बीपीएस	41 बीपीएस
निधियों की लागत	7.65	7.54	7.38	(16) बीपीएस	(27) बीपीएस

दिनांक: जुलाई 29, 2025

स्थान: मुंबई




राज किरण राय जि
(प्रबंध संचालक)

द कैपिटल, ए विंग, 15 वीं मंजिल, 1503, जी ब्लॉक, बांद्रा कुला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400051

